

**CERTIFICATE OF COMPETENCY IN POWER  
DISTRIBUTION (CCPD)**

00425

**Term-End Examination**

**December, 2014**

**OEE-001 : ELECTRICITY AND SAFETY  
MEASURES**

*Time : 3 hours*

*Maximum Marks : 70*

**Note :** Section A is **compulsory**. Attempt any **ten** questions from Section B and any **ten** questions from Section C. Answer only in English or Hindi.

---

**SECTION A**

1. Fill in the blanks. Select the correct answer from choices as under.  $10 \times 1 = 10$

(R/Z, Phase voltage, Energy,  $10^4$ , R/X, 1000 watt, Capacitance, Transformer, Voltage, Blow Lamp, Neutral, Earth, 5, 10)

- (i) The conductors which are in direct contact with the soil are called \_\_\_\_\_ conductors.
- (ii) Acceptable value of Earth Resistance is \_\_\_\_\_ ohm.
- (iii) \_\_\_\_\_ is used to heat the surface for soldering.

- (iv)  $\cos \phi =$  \_\_\_\_\_
- (v) The voltage between the phase and neutral is \_\_\_\_\_.
- (vi) Star point of three-phase connection is called \_\_\_\_\_.
- (vii) Equipment used to step up the voltage is called \_\_\_\_\_.
- (viii) Capacity to do work is \_\_\_\_\_.
- (ix) Charge per unit voltage is \_\_\_\_\_.
- (x)  $1 \text{ kW} =$  \_\_\_\_\_ watts.

## **SECTION B**

*Attempt any ten questions.*

$10 \times 2 = 20$

- 2.** What is a circuit breaker ?
- 3.** What component of power is useful, active or reactive, and why ?
- 4.** What is HVDC and how is it useful ?
- 5.** What are the three quality parameters of electric supply ?
- 6.** Why do we need transmission lines ?
- 7.** What precautions should any electrician take while handling tools ?
- 8.** What nature of devices are required for eye and head protection ?
- 9.** What do you mean by Cardio-pulmonary Resuscitation (CPR) ?
- 10.** What are the alternate power generating processes in case of any disaster ?
- 11.** What is the role of Buchholz Relay in a transformer ?
- 12.** What is an Instrument Transformer ?
- 13.** Why do we need to measure the Earth's resistivity ?

## **SECTION C**

*Attempt any ten questions.*

$10 \times 4 = 40$

- 14.** What are the basic principles of fire extinguishing ?
  - 15.** What is Megger and how is it useful ?
  - 16.** How is relay used as a protective device ?
  - 17.** What is Minimum Time Delay Relay ?
  - 18.** What is the use of earthing ?
  - 19.** Why is high voltage preferred for transmission lines ?
  - 20.** What is the reason for the statement :  
“Right tool for right use.”
  - 21.** Explain how to use :
    - (a) Pipe vice
    - (b) Punch
    - (c) Try square
  - 22.** What are the safety precautions to be adopted for any household electrical appliance ?
  - 23.** What are the objectives of disaster management ?
  - 24.** Describe different types of Instrument Transformers.
-

विद्युत वितरण में सक्षमता प्रमाण-पत्र  
(सी.सी.पी.डी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2014

ओ.ई.ई.-001 : विद्युत् और सुरक्षा उपाय

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

नोट: भाग क अनिवार्य है। भाग ख में से कोई दस और भाग ग में से कोई दस प्रश्न कीजिए। उत्तर केवल अंग्रेजी या हिन्दी में दीजिए।

भाग क

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।  $10 \times 1 = 10$

(R/Z, फेज वोल्टेज, ऊर्जा,  $10^4$ , R/X, 1000 वॉट, केपेसिटेंस, ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज, ब्लो लैंप, न्यूट्रल, अर्थ, 5, 10)

- (i) जिन चालकों (कंडक्टरों) का मिट्टी के साथ सीधा संपर्क होता है, वे \_\_\_\_\_ चालक कहलाते हैं।
- (ii) भू-प्रतिरोधकता का स्वीकृत मान \_\_\_\_\_ ohm है।
- (iii) जोड़ लगाने (सोल्डर करने) के लिए तल को गरम करने हेतु \_\_\_\_\_ का प्रयोग किया जाता है।

- (iv)  $\cos \phi = \underline{\hspace{2cm}}$
- (v) फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टता (वोल्टेज)  
 $\underline{\hspace{2cm}}$  है।
- (vi) तीन-फेज कनेक्शन का स्टार प्लाइट  $\underline{\hspace{2cm}}$   
कहलाता है।
- (vii) वोल्टता (वोल्टेज) को बढ़ाने (स्टेप-अप) के लिए  
प्रयुक्त होने वाला उपकरण  $\underline{\hspace{2cm}}$  कहलाता है।
- (viii) कार्य करने की क्षमता  $\underline{\hspace{2cm}}$  है।
- (ix) प्रति इकाई वोल्टेज आवेश (चार्ज)  $\underline{\hspace{2cm}}$  होता  
है।
- (x)  $1 \text{ kW} = \underline{\hspace{2cm}}$  वॉट (watts).

## भाग ख

किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

$10 \times 2 = 20$

2. सर्किट ब्रेकर क्या है ?
3. पावर का कौन-सा घटक उपयोगी होता है, क्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक, तथा यह भी बताइए क्यों ।
4. एच.वी.डी.सी. (H.V.D.C.) क्या है और यह किस प्रकार उपयोगी है ?
5. विद्युत् आपूर्ति के तीन गुणवत्ता मापदंड क्या हैं ?
6. ट्रांसमिशन (प्रेषण) लाइनों की ज़रूरत हमें क्यों होती है ?
7. औज़ारों का प्रयोग करते समय इलैक्ट्रिशियन को कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ?
8. आँख और सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है ?
9. हृद-फुफ्फुस पुनरुज्जीवन (सी.पी.आर) से आप क्या समझते हैं ?
10. किसी भी आपदा की स्थिति में विद्युत् उत्पादन की वैकल्पिक प्रक्रियाओं को बताइए ।
11. ट्रांसफॉर्मर में बुकहोल्ज रिले की क्या भूमिका होती है ?
12. इन्स्ट्रूमेंट (उपकरण) ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ?
13. भू-प्रतिरोधकता को मापना क्यों ज़रूरी है ?

## भाग ग

किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

$10 \times 4 = 40$

14. आग को बुझाने के मूल सिद्धांत क्या हैं ?
15. मैगर क्या है और यह किस प्रकार उपयोगी होता है ?
16. सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में रिले का प्रयोग कैसे होता है ?
17. न्यूनतम टाइम डिले रिले क्या है ?
18. अर्थिंग का प्रयोग बताइए ।
19. ट्रांसमिशन लाइनों में उच्च वोलटेज को वरीयता क्यों दी जाती है ?
20. निम्नलिखित कथन का कारण बताइए :  
“उचित औज़ार का उचित प्रयोग करना ।”
21. निम्नलिखित का प्रयोग कैसे किया जाता है :
  - (i) पाइप वाइस
  - (ii) पंच
  - (iii) ट्राई स्क्वेयर
22. किसी भी घरेलू विद्युतीय उपकरण के लिए क्या सुरक्षात्मक सावधानियाँ अपनाई जानी चाहिए ?
23. आपदा प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं ?
24. विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मरों का वर्णन कीजिए ।